

बाल शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति के लिए प्रोफार्मा

PROFORMA FOR RE-IMBURESMENT OF CHILDREN EDUCATION ALLOWANCE

शैक्षणिक वर्ष के लिए दावा:

CLAIM FOR THE ACADEMIC YEAR:

मैं एतद्वारा अपने बच्चे/बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता/छात्रावास-सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करता हूँ और संबंधित विवरण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:-

I hereby apply for the reimbursement of Children Education Allowance / Hostel-Subsidy for my child / children and relevant particulars are furnished below:

1	सरकारी कर्मचारी का नाम और रैंक Name & Rank of the Govt Servant	:			
2	वायक्तिगत क्र/Personal No.	:			
3	पद /Designation	:			
4	इकाई का नाम /Name of the Unit	:			
5	यदि पति/पत्नी कार्यरत है, तो बताएं कि क्या केंद्र सरकार, पीएसयू, या राज्य सरकार में है। (पति/पत्नी के नाम के साथ विवरण दें) If Spouse is employed, state whether in Central Govt. PSU, State Govt. (give details with name of the Spouse)	:			
6	पदनाम, कार्यालय और पति/पत्नी की बी.यू. संख्या, यदि पति/पत्नी रेलवे में कार्यरत है Designation, Office & B.U. No. of spouse, if spouse is employed in Railway	:			
7	बच्चे/बच्चों का विवरण जिनके लिए बाल शिक्षा भत्ते /छात्रावास सब्सिडी का दावा किया गया है Details of the child / children for whom CEA / Hostel Subsidy claimed				
	क्रम /Sequence	बच्चे के नाम/ Name of child	जन्मतिथि /DOB	कक्षा (आ.व. 202 -2)/ Standard (AY 202 – 2)	स्कूल/संस्थान का नाम और स्थान Name & Place of the School/ Institution
	पहला बच्चा 1st Child				
	द्वितीय बच्चा 2nd Child				

8. व्यय की प्रतिपूर्ति / Re-imbursement of Expenditure:				
क्रम Sequence	अवधि Period	बाल शिक्षा भत्ते की दर (रु.) Rate of CEA (Rs)	दावे की राशि Amount claimed	टिप्पणी Remarks

9. कर्मचारी के निवास से बच्चे के छात्रावास की दूरी (छात्रावास सब्सिडी के मामले में):
Distance of Hostel of child from residence of employee (in case Hostel Subsidy):
10. पहले ही प्राप्त पिछली तिमाही तक बाल शिक्षा भत्ता सीईए/छात्रावास सब्सिडी की राशि:
Amount of CEA / Hostel Subsidy already received up to previous quarter:
11. शैक्षणिक वर्ष जिसके लिए बाल शिक्षा भत्ता / छात्रावास-सब्सिडी जिसके लिए अभी आवेदन किया है:
The Academic year for which CEA / Hostel-Subsidy is applied now:
12. (a) क्या जिस बच्चे के लिए सीईए के लिए आवेदन किया गया है वह दिव्याङ्ग है: हाँ/नहीं
Whether the child for whom the CEA is applied for is a disabled child: Yes/No
(b) यदि हाँ, तो दिव्याङ्गता की प्रकृति का उल्लेख करें
If yes, indicate the nature of disability:
(c) दिव्याङ्गता प्रमाण पत्र की तिथि/Date of disability certificate:
(d) दिव्याङ्गता का प्रतिशत बताएं/Indicate the percentage of disability:
13. क्या संस्थान के प्रमुख से वास्तविक प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है: हाँ / नहीं
Whether the Bonafide certificate from Head of Institution has been attached: Yes/No
14. छात्रावास सब्सिडी के लिए, राशि का उल्लेख करने वाला वास्तविक प्रमाण पत्र संलग्न है: हाँ / नहीं
For Hostel Subsidy, the Bonafide certificate from mentioning the amount is attached: Yes/No
15. यदि हाँ, तो मद संख्या 14 पर, छात्रावास सब्सिडी के लिए दावा की गई राशि: रु _____
If Yes at Item No. 14, Amount claimed for Hostel Subsidy: Rs
16. (a) प्रमाणित किया जाता है कि मैं या मेरी पत्नी/पति केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं/ नहीं हैं।
Certified that I or my wife / husband is / is not a Central Government servant.
(b) प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/पति श्री/श्रीमती
वर्तमान में के रूप में कार्यरत हैं। और यह कि वह
ऊपर उल्लिखित बच्चे/बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ते के लिए आवेदन नहीं करेगा/करेगी /आवेदन
नहीं किया है।
Certified that my wife / husband Sri / Smt is
presently working as in
and that he/ she shall not apply / has not applied for the Children Education
Allowance for the child / children mentioned above.

(c) प्रमाणित किया जाता है कि मैंने या मेरी पत्नी/पति ने किसी अन्य स्रोत से इस प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया है और भविष्य में इसका दावा नहीं करेंगे।

Certified that I or my wife / husband-has not claimed this re-imburement from any other source and will not claim the same in future.

17. प्रमाणित किया जाता है कि मेरा बच्चा जिसके संबंध में बाल शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति लागू है, स्कूल/जूनियर कॉलेज में पढ़ रहा है जो शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त और संबद्ध है।
Certified that my child in respect of whom re-imburement of Children Education Allowance is applied is studying in the School / Jr. College which is recognized and affiliated to Board of Education / University.

18. प्रमाणित किया जाता है कि मैं केवल अपने दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के संबंध में सीईए का दावा कर रहा हूँ, ऊपर दी गई जानकारी पूर्ण और सही है और मैंने किसी भी प्रासंगिक जानकारी को छुपाया नहीं है। ऊपर दिए गए विवरण में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में, जो बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति के लिए मेरी पात्रता को प्रभावित करता है, मैं इसे तुरंत सूचित करने और अतिरिक्त भुगतान यदि कोई हो तो वापस करने का वचन देता हूँ। इसके अलावा, मुझे पता है कि यदि किसी भी स्तर पर ऊपर दी गई जानकारी/दस्तावेज गलत पाए जाते हैं, तो मैं अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँ।
Certified that I am claiming the CEA in respect of my two eldest surviving children only. The information furnished above are complete and correct and I have not suppressed any relevant information. In the event of any change in the particulars given above which affect my eligibility for reimbursement of Children Education Allowance, I undertake to intimate the same promptly and also to refund excess payments if any made. Further, I am aware that if at any stage the information / documents furnished above is found to be false, I am liable for disciplinary action.

दिनांक/Date:

स्थान /Place:

(सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर /Signature of Govt Servant)

नाम /Name:

रैंक/Rank :

व.क्र./P.No.:

II

प्रतिहस्ताक्षरित /COUNTERSIGNED

दिनांक/Date:

भारत सरकार के व्यक्तिगत, लोक शिकायत मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के प्राधिकार के अंतर्गत आदेश संख्या ए-27102[02[2017-स्था।
(एएल) 16 अगस्त 2017

(यह आदेश 01 जुलाई 2017 से प्रभावी होगा)

**संस्थान / स्कूल के प्रमुख से प्रमाण पत्र
(बाल शिक्षा भत्ता प्रतिपूर्ति के लिए)**

संदर्भ क्र. _____ दिनांक: _____

यह प्रमाणित किया जाता है कि कुमार /कुमारी _____ प्रवेश
क्रमांक _____ जन्मतिथि _____ पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती _____
पिछले शैक्षणिक वर्ष _____ के दौरान कक्षा _____ वर्ग _____ रोल नंबर _____
स्कूल/संस्थान _____ से संबद्धता पंजीकरण
संख्या _____ कोड _____ और पैटर्न _____ पाठ्यचर्या के माध्यम से
पढ़ रहा था/रही थी।

स्थान:

दिनांक:

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर
(विद्यालय की मोहर लगाएँ)

**Authority vide Government of India Ministry of Personal P.G and Department of
Personal & Training New Delhi Order No. A-27102[02[2017-Estt. (AL) 16 August 2017**
(This order shall be effective from 01 Jul 2017)

**CERTIFICATE FROM THE HEAD OF INSTITUTION / SCHOOL
(FOR REIMBURSEMENT CEA)**

Ref No.

Date:

It is certified that Master/Kumari having Admission No. _____ D.O.B. _____
Son/Daughter of Mr./Mrs. _____ was studying in Class
_____ Sec _____ Roll No. _____ during the Previous Academic Year
_____ from to School/Institution, namely _____
vide affiliation Regd No. / _____ Code _____ and pattern
_____ Curriculum.

Place:

Date:

Signature of principal
(Affix School Stamp)

स्व-घोषणा

मैं, सेवा संख्या _____ रैंक _____ यूनिट का नाम _____ एतद्द्वारा
प्रमाणित करता हूँ कि मेरा बेटा/बेटी _____ कक्षा _____ वर्ग
_____ रोल नंबर _____ स्कूल में पिछले शैक्षणिक वर्ष 202 -202 के दौरान पढ़ता/ पढ़ती है।

ऊपर दिए गए विवरण में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में जो बाल शिक्षा भत्ते के लिए मेरी
पात्रता को प्रभावित करता है, मैं इसे तुरंत सूचित करने और अतिरिक्त भुगतान, यदि कोई हो, वापस
करने का वचन देता हूँ।

(सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर)

नाम: _____

रैंक: _____

व.क्र.: _____

दिनांक:

स्थान:

SELF-DECLARATION

I, Service No. _____ Rank _____ Name _____ of
Unit _____ do hereby certify that my Son/Daughter namely
_____ Studied in Class _____ Sec _____ Roll
No. _____ during Previous Academic Year **202 - 202** in School.

In the event of any change in the particulars given above which affect my
eligibility for Children Education Allowance. I undertake to intimate the same
promptly and refund excess payment, if any made to me.

Signature of Govt Servant

Name: _____

Rank: _____

P. No.: _____

Date:

Place: